

3.60 लाख के नकली नोटों के साथ 6 पकड़े

Nagour News - साढ़े तीन लाख रु. से ज्यादा के नकली नोटों की सप्लाई करने आए छह आरोपियों को जयपुर कमिश्नरेट की सीआईयू टीम ने...

Hindi News | Rajasthan | Nagour
Besroli News rajasthan news 6 lakhs with fake notes of 360 lakhs
Feb 27, 2019, 02:20 AM IST



साढ़े तीन लाख रु. से ज्यादा के नकली नोटों की सप्लाई करने आए छह आरोपियों को जयपुर कमिश्नरेट की सीआईयू टीम ने विश्वकर्मा थाना पुलिस के साथ मिलकर दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों से 3.60 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। आरोपी 500 रुपए का असली नोट लेकर 2000 हजार रुपए का नकली नोट देते थे। इनसे बरामद हुए जाली नोट दो हजार रुपए और दो सौ रुपए के हैं। आरोपियों में चूरू के रतनगढ़ का रतन कुम्हार, अजीतगढ़ निवासी मनोहर सिंह, चौमूं, जयपुर निवासी मोहन यादव तथा गोविंदगढ़, सीकर निवासी सरदार यादव, मोहनलाल अग्रवाल और जयकुमार जैन शामिल हैं।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर प्रसन्न कुमार खमेसरा ने बताया कि सीआईयू टीम के एएसआई द्वारका प्रसाद और कांस्टेबल मनेन्द्र को सूचना मिली थी कि विश्वकर्मा थाना क्षेत्र में रोड नंबर एक स्थित वन पार्क के पास छह लोग खड़े हैं। उनके पास नकली नोट हो सकते हैं। सूचना पर सीआईयू टीम ने विश्वकर्मा थाना पुलिस के साथ मिलकर दबिश दी।

30 लाख रु. के नकली नोट सप्लाई कर चुके, टोंक व अहमदाबाद से लाते थे

आरोपियों ने पूछताछ में कबूला है कि जयपुर ग्रामीण व सीकर में अब तक करीब 30 लाख रुपए के नकली नोट सप्लाई कर चुके हैं। वे अहमदाबाद व टोंक से नकली नोट लेकर आते थे। आरोपियों ने शराब के ठेकों व पेट्रोल पंप पर नकली नोट चलाने के लिए सप्लाई देने की बात कबूली है।

गिरफ्तार आरोपी।

Source: <https://www.bhaskar.com/rajasthan/nagour/news/rajasthan-news-6-lakhs-with-fake-notes-of-360-lakhs-022031-4000883.html>